

तुरंत रिलीज के लिए

## सिटी का नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम 2022 में दुबारा आ रहा है

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 अगस्त, 2022) – सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम (Nurturing Neighbourhoods Program), मंगलवार, 9 अगस्त, 2022 को दुबारा आ रहा है।

नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम का उद्देश्य, नागरिकों की भागीदारी को बेहतर बनाना, निवासियों को अपने नेबरहुड को बेहतर बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाना और उन्हें संसाधनों से जोड़ना है। निवासियों के लिए अपने नेबरहुड के बारे में अधिक जानने और उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है, इसे ऑनलाइन साझा करने के लिए चार नए तरीके होंगे:

- नेबरहुड वॉक्स – पूरे ब्रैम्पटन में आयोजित की जाने वाली पांच वॉक्स और वर्कशॉप्स होंगी: फ्लेचर्स मीडो N/S (Fletcher's Meadow N/S) और वान किर्क (Van Kirk), लुंडी विलेज (Lundy Village) और फ्लेचर्स क्रीक (Fletcher's Creek), ब्रैमली जी-सेक्शन (Bramalea G-Section), कासलमोर एस्टेट्स एंड वाइल्डलाइफ (Castlemore Estates and Wildfield) और शेरिडन (Sheridan)।
- वर्चुअल (आभासी) टूर – दस वर्चुअल टूर होंगे, जिनमें पूरे ब्रैम्पटन में नेबरहुड्स की शानदार चीजों को उजागर किया जाएगा।
- नेबरहुड सर्वेक्षण – सिटी, कम्युनिटी के नेबरहुड्स को समझना चाहती है और यह जानना चाहती है कि निवासी, उनके अंदर आपसी व्यवहार कैसे करते हैं। निवासियों को सलाह दी जाती है कि वे [ऑनलाइन सर्वेक्षण \(online survey\)](#) में हिस्सा लें।
- ऑनलाइन मैपिंग टूल – इस टूल के साथ, निवासी अपनी पसंदीदा जगहों, चिंताओं और बदलावों को पहचान पाएंगे, जो वे पूरे शहर में देखना चाहते हैं।

ब्रैम्पटन के निवासियों को नेबरहुड की अपनी पसंदीदा शानदार चीजों को उजागर करते हुए एक छोटा-सा वीडियो साझा करने के लिए आमंत्रित किया जाता है, इससे उनके पास इनाम जीतने का अवसर होगा! सिटी को, 14 अगस्त तक अपनी पसंदीदा लोकल जगहों के बारे में बताएं। चुनिंदा वीडियो को इस वर्ष के प्रोग्राम में पेश किया जाएगा! वीडियो ऑनलाइन, [www.brampton.ca/communitysafety](http://www.brampton.ca/communitysafety) पर प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

स्पांसरशिप, ऐसी मुफ्त क्वालिटी प्रोग्रामिंग प्रदान करने के लिए सिटी के प्रयासों में सहायता करती है, जो कम्युनिटी में हर किसी के लिए सुलभ हो। नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम को एक बार फिर, अलेक्ट्रा (Alectra) और एनब्रिज गैस (Enbridge Gas) उदारतापूर्वक प्रायोजित कर रहे हैं।

नरचरिंग नेबरहुड्स के बारे में अधिक जानकारी के लिए और वर्चुअल नेबरहुड वॉक्स की पूरी सूची के लिए, [www.brampton.ca/communitysafety](http://www.brampton.ca/communitysafety) पर जाएं।

**2021 का प्रोग्राम**

पिछले वर्ष, सिटी ने ब्रैम्पटन के निवासियों को शामिल करने और सिविक कम्युनिटी बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए, पूरे ब्रैम्पटन में 15 नेबरहुड्स ऑडिट किए थे। 1300 से अधिक निवासियों ने, 2021 में नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम के द्वारा अपनी कम्युनिटी को बेहतर बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई थी। सिटी को 900 से अधिक सर्वेक्षण जवाब मिले थे और 450 से अधिक लोगों ने ऑनलाइन मैपिंग टूल (Online Mapping Tool) पिन किया था। 2021 के नतीजों के बारे में अधिक जानकारी के लिए, [www.brampton.ca/communitysafety](http://www.brampton.ca/communitysafety) पर जाएं।

**हवाले**

“ब्रैम्पटन के निवासी विशेषज्ञ होते हैं, जब उनके नेबरहुड्स की बात आती है, जिसे वे घर कहते हैं और हमारे शहर के बारे में उन्हें क्या पसंद है और वे किस चीज़ में बदलाव चाहते हैं, इस बारे उनके सुझाव बहुमूल्य हैं। स्वस्थ और सुरक्षित शहर होने के नाते, हम चाहत हैं कि सभी ब्रैम्पटन निवासी अपने नेबरहुड्स में सुरक्षित महसूस करें, उनके अंदर अपनेपन की भावना हो और उनके पास अपनी कम्युनिटी में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने का अवसर हो। पिछले नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले सभी लोगों का धन्यवाद और हम अधिक जानकारी के लिए दुबारा हमारे निवासियों से जुड़ने के लिए उत्साहित हैं।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“सिटी ऑफ ब्रैम्पटन, ऐसा शहर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसे हमारे सभी निवासी गर्व से अपना घर कहें। ब्रैम्पटन के निवासियों को आमंत्रित किया जाता है कि वे व्यक्तिगत रूप से इस वर्ष के नरचरिंग नेबरहुड्स क्षेत्रों का टूर करें, ऑनलाइन या हमारी शैड्यूल की गई वॉक्स में से किसी एक में अपना सुझाव दें और इनाम जीतने के अवसर के लिए छोटे-से वीडियो में नेबरहुड की अपनी पसंदीदा शानदार चीज़ों को साझा करें! आपके विचार मायने रखते हैं और आप स्थिर तथा संपूर्ण कम्युनिटीज बनाने में हमारी मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“नरचरिंग नेबरहुड्स प्रोग्राम, ब्रैम्पटन निवासियों के इस बारे में सुझाव साझे करने कि उन्हें अपनी कम्युनिटी के बारे में क्या पसंद है, सिटी के आगामी प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने का अवसर प्रदान करता है और लोकल तौर पर बदलाव के लिए प्रेरणा देता है। हमें पिछले वर्षों में प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का धन्यवाद करते हैं और इस वर्ष के प्रोग्राम के द्वारा दुबारा हमारे निवासियों से जुड़ने के लिए उत्साहित हैं।”

- पॉल मोरिसन (Paul Morrison), इंटरिम चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन



## Media Release

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 70,000 लोगों और 75,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें! [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) पर और जानें।

### मीडिया संपर्क

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन मल्टीकल्चरल मीडिया  
[multiculturalmedia@brampton.ca](mailto:multiculturalmedia@brampton.ca)